

Affle/PB/2025-26 June 12, 2025

To

BSE Limited	National Stock Exchange of India Ltd
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-l, G
Dalal Street, Mumbai 400 001	Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051
Scrip Code: 542752	Symbol: AFFLE

Re: Submission of Notice of Postal Ballot and details of remote e-voting published in Newspapers

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 read with Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of advertisement published in today's Newspapers viz. Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) informing about completion of dispatch of postal ballot notice through electric mode on Wednesday, June 11, 2025, details of remote evoting facility and other related information.

The above information shall also be available on the Company's website www.affle.com.

Submitted for your kind reference and records.

Thanking you,

Yours Faithfully, For Affle 3i Limited

(Formerly known as Affle (India) Limited)

Parmita Choudhury

Company Secretary & Compliance officer

Encl: As above

FINANCIAL EXPRESS

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

Tender No: E-Tender No. 05/2025-26/SE/PHC/CHN

Jal Jeevan Mission- WSS to udayamperoor GP- providing additional length of 450mm DI pipeline for clear water pumping main due to change in alignment LSGD road restoration-General Civil work. EMD: Rs. 200000 Tender fee: Rs. 13010 Last Date for submitting Tender: 27-06-2025 03:00:pm Phone: 0484-2360645 Website: www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in

> **Superintending Engineer** PH Circle Kochi

KWA-JB-GL-6-133-2025-26

PPGCL

Regd Office: Shatabdi Bhawan, B12 & 13, Sector 4, Gautam Budh Nagar, Noida, Uttar Pradesh-20130 Plant Adress: PO- Lohgara, Tehsil-Bara, Prayagraj (Allahabad), Uttar Pradesh-212107 Phone: +91-120-6102000/6102009 CIN: U40101UP2007PLC032835

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

Prayagraj Power Generation Company Limited invites expression of interest (EOI) from eligible vendors for Title of Procurement: Procurement of Boiler Scaffoldings for Furnace Inspection of 3x660 MW Thermal Power Plant at Prayagraj Power Generation Company Limited, Bara, Dist. Prayagraj, Uttar Pradesh, India.

Details of pre-qualification requirements, bid security, purchasing of tender document etc may be downloaded using the URL-https://www.ppgcl.co.in/tenders.php Eligible vendors willing to participate may submit their expression of interest along with the tender fee for issue of bid document latest by 15" June 2025.

affle Affle 3i Limited (Formerly known as Affle (India) Limited)

Registered Office: A47 Lower Ground Floor, Hauz Khas, Off Amar Bhawan, New Delhi -110016 (P) 0124-4598749, (W) www.affle.com, Email: compliance@affle.com CIN: L65990DL1994PLC408172

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") and other applicable provision of the Act and Rules, General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India "MCA Circulars"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Companies Secretaries of India ("SS-2"), and other applicable laws and regulations, if any, including any statutory modifications or re-enactment(s) thereof for the time being in force and as amended from time to time, Affle 3i Limited (formerly known as (Affle (India) Limited) ("the Company") is seeking approval of its members via passing of Resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated June 4, 2025 ("Postal Ballot Notice") by way of electronic voting ("e-voting/remote e-voting") only

All the members are hereby informed that:

- The process of sending the Postal Ballot Notice along with the instructions regarding. remote e-voting through email to all those members whose email address is registered with the Company or with the Depositories/ Depository Participants or M/s. KFin Technologies Limited ("KFinTech"), Registrar and Share Transfer Agents ("RTA") and whose names appear in the Register of Members/list of Beneficial Owners as or Friday, June 6, 2025 ("Cut-off Date") has completed on June 11, 2025,
- The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website at https://affle.com. websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of KFinTech at https://evoting.kfintech.com. Further as per MCA Circulars. physical copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business envelope shall not be sent to the members for this Postal Ballot
- Members can exercise their voting rights through e-voting only, the detailed procedure for e-voting is given in the Postal Ballot Notice. The e-voting period shall commence from Thursday, June 12, 2025 (9:00 a.m. IST) and will end on Friday, July 11, 2025 (5:00 p.m. IST) (both days inclusive). Members are requested to cast their votes
- The e-voting module shall be disabled at 5:00 P.M. IST on July 11, 2025 and once the votes on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to
- The Company has appointed Ms. Kiran Sharma (FCS 4942, CP No. 3116) of Kiran Sharma & Co., Practicing Company Secretary, to act as the Scrutiniser to scrutinise the e-voting process in a fair and transparent manner.
- The resolutions, if approved, shall be deemed to have been passed on the last date of e-voting i.e. on Friday, July 11, 2025. The results of the e-voting will be announced within two working days that is on or before Tuesday, July 15, 2025 and will be displayed on the Company website at https://affle.com and on the website of KFinTech at https://evoting.kfintech.com. The results along with scrutiniser's report will simultaneously be communicated to the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at https://www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at https://www.nseindia.com.
- Members are requested to note the following contact details for addressing queries/grievances, if any:

Mr. Umesh Pandey (Unit: Affle 3i Limited) Manager, KFin Technologies Limited

Email id: evoting@kfintech.com / umesh.pandey@kfintech.com Toll free No. 1800 309 4001

For Affle 3i Limited (Formerly known as Affle (India) Limited

Date : June 11, 2025 Place: Gurugram

Parmita Choudhury Company Secretary & Compliance Officer

PNB Finance and Industries Limited

CIN No.:-L65929DL1947PLC001240; Website: www.pnbfinanceandindustries.com Regd. Office: - 1" Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 Telephone:- +91-7303495375; E - mail : pnbfinanceindustries@gmail.com NOTICE OF THE 130™ ANNUAL GENERAL MEETING,

REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

- The 130" Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be convened on Wednesday, July 09, 2025 at 10:30 A.M. IST through Video Conference ("VC") facility without the physical presence of the members at a common venue, to transact the ordinary and special businesses, as set out in the notice of the 130° AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of
- In terms of MCA Circulars and SEBI Circular, the requirement of sending physical copy of the notice of AGM and Annual Report to the Members has been dispensed, therefore the Company is sending notice of its 130" AGM and Annual Reports 2024-25 to the members at their registered email id address. The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.pnbfinanceandindustries.com and on the website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com, The Members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with the Company, are required to register their email addresses with Skyline Financial Services Private Limited (Registrar and Transfer Agent) by sending a request letter specifying name, folio number, number of shares, certificate number etc. at email ID admin@skylinerta.com on or before July 02, 2025.
- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of July 02, 2025 may cast their vote electronically on the ordinary and special businesses, as set out in the Notice of the 130" AGM through electronic voting system ("remote e-voting") of National Securities Depository Limited ("NSDL"). The detailed instructions on remote e-voting and joining AGM are given in the notice of AGM. All the
- (i) The ordinary and special business, as set out in the Notice of the 130" AGM, will be transacted through voting by electronic means;
- (ii) Date and time of commencement of remote e-voting: July 05, 2025 (9:00 A.M.); (iii) Date and time of end of remote e-voting: July 09, 2025 (5.00 P.M.);
- (iv) The cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-voting or through e-voting system during the 130" AGM is July 02, 2025;
- (v) Any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of the 130° AGM by email and holding shares as on the cut-off date July 02, 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or pnbfinanceindustries@gmail.com.
- (vi) Members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may participate in the AGM through VC facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-voting system during AGM; c) the members participating in the AGM and who had not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-voting system during the AGM; d) a person whose name is recorded in the Register of Members as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, participating in the AGM through VC facility and e-voting during the AGM.
- (vii) Those members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with the Company, may register their email address by sending, scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio number and complete address, selfattested scanned copy of the PAN card; and self-attested scanned copy of any document (such as Aadhar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Members registered with the Company, be email to pnbfinanceindustries@gmail.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant.
- (viii) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or send a request at evoting@nsdl.co.in or Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, 3rd Floor, Naman Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra - 400 051, at the designated email id - evoting@nsdl.co.in or call on: 022-48867000 who will also address the grievances connected with the voting by electronic
- The Register of Members and Share Transfers Books of the Company will remain closed from July 03, 2025 to July 09, 2025 (both days inclusive). For PNB Finance and Industries Limited


Date : June 11, 2025

Place : New Deihi

Shweta Saxena Director & Company Secretary

STREET SIGNALS

Wipro promoters swap 1.72% stake worth ₹4,675 cr



ABOUT 180.5 MILLION shares of Wipro, amounting to a 1.72% stake, were exchanged among

market transactions on Wednesday, according to exchange data. Following the share sale, Wipro shares appreciated by 1.61% to close at ₹258.95 on the BSE. The stock settled 1.62% higher at Rs 259 on the NSE. According to block deal data on the NSE, Azim Premji Trust sold 180.5 million equity shares or a 1.72% stake in Wipro. The transaction, valued at around ₹4,674.77 crore, was executed at an average price of ₹258.99 per share. PTI

Orkla India files IPO papers

with Sebi

ORKLA INDIA, WHICH owns spices and condiments brands MTR and Eastern, has filed preliminary

papers with markets regulator Sebi for an IPO. The IPO is a complete offer for sale of 22.8 million equity shares by promoter and other shareholders.

Mirae, BlackRock buy 1% in AB Capital for ₹568 cr

MIRAE ASSET MF, BlackRock, and Goldman Sachs, among others, on Wednesday bought nearly a 1% stake in financial services company Aditya Birla Capital for ₹568 crore through open market transactions. These entities purchased 23.4 million

equity shares or 0.9% stake in Aditya Birla Capital at an average price of Rs 242.65, taking the aggregate deal value to ₹567.80 crore. Motilal Oswal Mutual Fund, Edelweiss MF, HSBC MF, New York State Teachers Retirement System, Dublin-based Mediolanum International Funds, and investment management firm Eaton Vance were among the buyers.

RE-OFFER ADVERTISEMENT AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT UNDER REGULATION 18(7) IN TERMS OF SECURITIES AN EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011

BIJOY HANS LIMITED

A public limited company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 Corporate Identification Number: L51909AS1985PLC002323; Registered Office: HP Brahmachari Road, Rehabari, Guwahati - 781008, Assam, India; Contact Number: +91-9435048987; E-mail Address: ash_ashim@yahoo.co.in; Website; www.bijoyhans.net.

REGULATIONS ('PRE-OFFER CUM CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT ADVERTISEMENT' This Pre-Offer cum corrigendum to the Detailed Public Statement Advertisement is to be read in conjunction with the: a) Public Announcement date Thursday, December 26, 2024 ('Public Announcement'), (b) Detailed Public Statement dated Monday, December 30, 2024, in connection with this Offer published on behalf of the Acquirers on Tuesday, December 31, 2024, in Financial Express (English daily) (All Editions), Jansatta (Hindi daily) (All Editions Mumbai Lakshadeep (Marathi Daily) (Mumbai Edition), and Daindin Barata (Assamese Daily) (Guwahati Edition) ('Newspapers') ('Detailed Public Statement (c) Draft Letter of Offer dated Friday, January 03, 2025 filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16 (1) of the SEBI (SAS) Regulations ('Draft Letter of Offer'), (d) Letter of Offer dated Monday, June 02, 2025, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement ("Letter of Offer"), (e) Recommendations of the Independent Directors of the Target Company which were approved on Tuesday, June 10 , 2025, and published in the Newspapers on Wednesday, June 11, 2025 (Recommendations of the Independent Directors of the Target Company') (the Public Announcement Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Recommendations of the Independent Directors, and this Pre-Offer Advertisement cun Corrigendum to the Detailed Public Statement of the Target Company are hereinafter collectively referred to as 'Offer Documents') issued by the Manager of behalf of the Acquirers.

Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following:

For capitalized terms used hereinafter, please refer to the Paragraph 1 titled as 'Definitions and Abbreviations' on page 8 of the Letter of Offer.

A. Offer Price

The Offer is being made at a price of ₹12.50/- per Offer, payable in cash. There has been no revision in the Offer Price.

A Committee of Independent Directors of the Target Company comprising of Mr. Salii Striam Shetty as the Chairperson of the IDC, Mr. Amit Jawarimal Dugar & Sanja Kumar Baid members of IDC, approved their recommendation on the Offer on Tuesday 10, 2025, and published in the Newspapers on Wednesday, June 11, 2025. T IDC Members are of the opinion that the Offer Price to the Public Shareholders of the Target Company is fair and reasonable and is in line with SEBI (SAST Regulations, Public Shareholders may, therefore, independently evaluate the offer and take an informed decision.

This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations. There has been no competitive bid to the Offer.

- The Letter of Offer has been dispatched on Friday, June 96, 2025, to the Public Shareholders of the Target Company whose names appeared on the register members as on the Identified Date, i.e., Friday, May 30, 2025. The dispatch has been carried out through post to those Public Shareholders who had not registered the e-mail addresses with the Depositories and/or the Target Company, and through electronic mode (e-mail) to those Public Shareholders whose e-mail addresses we registered with the Depositories and/or the Target Company
- The Draft Letter of Offer dated Friday, January 03, 2025, was filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16 (1) of the SEBI (SAS' Regulations, for its Observations. In pursuance of which all the observations received from SEBI vide letter bearing reference number SEBI Observation letter bearing reference number 'SEBNHO/CFD/CFD-RAC-DCR1/P/OW/2025/14162/1' dated Wednesday, May 28, 2025, incorporated in the Letter of Offer.
- Except as stated hereinafter, there have been no material changes in relation to the Offer, other than those already disclosed in the Letter of Offer. 1. Public Shareholders of the Target Company are requested to take note that, pursuant to this Corrigendum to the Letter of Offer, the date mentioned und "Offer Closes on" in the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement on page 94 of the Letter of Offer shall be read as Thursday, June 26, 2025.
- Please note that a copy of the Letter of Offer is also available and accessible on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the Target Company at www.bigythans.ne the Registrar to the Offer at www.integratedregistry.in, the Manager to the Offer at www.swarajshares.com, and BSE Limited at www.bseindia.com, from which the Instructions for Public Shareholders
- In case of Equity Shares are held in the Dematerialized Form: The Public Shareholders who are holding Equity Shares in electronic/dematerialized form an who desire to tender their Equity Shares in this Offer shall approach their respective Selling Broker indicating to their Selling Broker the details of Equity Shares the such Public Shareholder intends to tender in this Offer. Public Shareholders should tender their Equity Shares before market hours close on the last day of the Tendering Period. For further information, kindly refer to Paragraph 8.8. titled as 'Procedure for fendering the Equity Shares held in Dematerialized Form' on page 6: In case of Equity Shares are held in Physical Form: As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations and SEBI's press release dated
- December 2016, bearing reference no. PR 49/2016, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form will a depository with effect from 1 April 2019. However, in accordance with the circular issued by SEBI bearing reference number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/1dated 31 July 2020, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well are eligible to tender their Equity Shares in this Offer as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Public Shareholders who are holding Equity Shares in physical form and intend to participate in the Offer will be required to approach their respective Selling Broker along with the complete set of documents for verification procedures to be carried out, including the (i) original share certificate(s), (ii) valid share transfer form(s), i.e. Form SH-4, duty filled and signed by the transferors (i.e., by all registered shareholders in same order and as p the specimen signatures registered with the Target Company) and duly witnessed at the appropriate place, (iii) self-attested copy of the shareholder's PAN Card, (i Form of Acceptance duly completed and signed in accordance with the instructions contained therein, by soleljoint Public Shareholders whose name(s) appears on the share certificate(s) in the same order in which they hold Equity Shares, and (v) any other relevant documents such as power of attorney, corporate authorizate (including board resolution/specimen signature), notarized copy of death certificate and succession certificate or probated will, if the original shareholder has decease etc., as applicable. For further information, kindly refer to the Paragraph 8.7. titled as 'Procedure for fendering Equity Shares held in Physical Form' on page 64 of the Letter of Offer
- Procedure for tendering the Shares in case of non-receipt of the Letter of Offer: Public Shareholders who have acquired Equity Shares but whose names do no appear in the records of Depositories on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer. In case of non-receipt of the Letter of Offer, such Public Shareholders of the Target Company mu download the same from the SEBI website (www.sebi.gov.in) or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares of the Target Company. Alternatively, in case of non-receipt of the Letter of Offer, shareholders holding the Equity Shares may participat in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, number of shares held, client ID number. Di name, DP ID number, number of shares tendered and other relevant documents. Such Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electron platform to be made available by Stock Exchanges before the closure of the Offer. For further information, kindly refer to the Paragraph 8.24, titled as Procedure fi fendering Equity Shares in case of non-receipt of the Letter of Offer on page 67 of the Letter of Offer

As on the date of this Letter of Offer, there are no statutory or other approvals required for implementing the Offer except as mentioned in the Letter of Offer. For furth information, kindly refer to the Paragraph 7.3, filled as 'Statutory Approvals and conditions of the Offer at page 81 of Letter of Offer.

Procedure for Acceptance and Settlement of Offer

The Open Offer will be implemented by the Acquirers through Stock Exchange mechanism made available by BSE Limited in the form of separate window ('Acquisition Window') as provided under the SEBI (SAST) Regulations, SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated 13 April 2015 as amended read along with SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated 9 December 2016, as amended, and SEBI Circular bearing number SEBI/HO/CFI DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 issued by SEBI. As per SEBI Circular bearing number SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 202 a lien shall be marked against the shares of the shareholders participating in the tender offers. Upon finalisation of the entitlement, only accepted quantity of shareholders. shall be debited from the demat account of the shareholders. The lien marked against unaccepted shares shall be released. The detailed procedure for tendering an settlement of shares under the revised mechanism is specified under the Paragraph 8 titled as Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer on page 63 of the

Revised Schedule of Activities

Schedule of Activities	Tentative Schedule Day and Date	ACTUAL SCHEDULE DAY AND DATE (UPON RECEIPT OF SEBIS OBSERVATION LETTER)	
Issue date of the Public Announcement	Thursday, December 26, 2024	Thursday, December 26, 2024	
Publication date of the Detailed Public Statement in the newspapers	Tuesday, December 31, 2024	Tuesday, December 31, 2024	
Date of filing of the Draft Letter of Offer with SEBI	Friday, January 03, 2025	Friday, January 03, 2025	
Last date for public announcement for a competing offer(s)**	Tuesday, January 21, 2025	Tuesday, January 21, 2025	
Date for receipt of observation from SEBI on the Draft Letter of Offer	Friday, January 24, 2025	Wednesday, May 28, 2025	
Identified Date ⁽⁵⁾	Tuesday, January 28, 2025	Friday, May 30, 2025	
Last date for dispatch of the Letter of Offer to the Public Shareholders of the Target. Company whose names appear on the register of members on the identified Date	Tuesday, February 04, 2025	Friday, June 06, 2025	
Last date of publication in the Newspapers of recommendations of the independent directors committee of the Target Company for this Offer	Friday, February 07, 2025	Wednesday, June 11, 2025	
Last date for upward revision of the Offer Price and / or the Offer Size	Monday, February 10, 2025	Thursday, June 12, 2025	
Last date of publication of opening of Offer public announcement in the newspapers in which the Detailed Public Statement had been published	Monday, February 10, 2025	Thursday, June 12, 2025	
Date of commencement of Tendering Period	Tuesday, February 11, 2025	Friday, June 13, 2025	
Date of closing of Tendering Period	Tuesday, February 25, 2025	Thursday, June 26, 2025	
Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders ⁽²⁾	Tuesday, March 11, 2025	Thursday, July 10, 2025	
Last date for publication of post-Open Offer public announcement in the Newspapers ^a	Wednesday, March 19, 2025	Thursday, July 17, 2025	
Last date for filing the post Offer report with SEBI®	Wednesday, March 19, 2025	Thursday, July 17, 2025	

(1) There has been no competing offer for this Offer.

(2) Identified Date is only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent in accordance with the SEBI (SAST) Regulations. It is clarified that all the Public Shareholders (even if they acquire Equity Shares and become shareholders of the Target Company after the Identified Date) are eligible to participate in this Offer any time during the Tendering Period.

(3) These actions set out above may be completed prior to their corresponding dates subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations.

The copies of the documents isted under Paragraph 10 titled as 'Documents for inspection' on page 80 of the Letter of Offer will be available for inspection at the principal place of business of the Manager to the Offer, Swaraj Shares and Securities Private Limited, located at Unit No 304, A Wing, 215 Atrium, Courtyard Marriot. Andheri East, Mumbai- 400093, Maharashtra, India on any working day between 10:00 a.m. (Indian Standard Time) and 5:00 p.m. (Indian Standard Time) during the Tendering Period commencing from Friday, June 13, 2025, to Thursday, June 26, 2025. Further, in light of SEBI Circular SEBI/HC/CFD/DCR2/CIR/P/2020/139 dated July 27, 2020, read with SEBI Circular SEBI/CIR/CFD/DCR1/CIR/P/2020/83 dated May 14, 2020, copies of the following documents will be available for inspection to the Public Shareholders electronically during the Tendering Period. The Public Shareholders interested to inspect any of the following documents can send an email from their registered email-ids (including shareholding details and authority letter in the event the Public Shareholder is a corporate body) with a subject line ("Documents for Inspection - BUHANS Open Offer", to the Manager to the Open Offer at takeover@swarajshares.com; and upon receipt and processing of the received request access can be provided to the respective Public Shareholders for electronic inspection of documents.

The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Pre-Offer cum Corrigendum to the Detailed Public Statement Advertisement (other than such information as has been obtained from public sources or provided by or relating to and confirmed by the Target Company) and undertake that they are aware of and will comply with their obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of this Open Offer. The Acquirers will be severally and jointly responsible for ensuring compliance with the SEBI (SAST) Regulations. The persons signing this Pre-Offer ourn Compendum to the Detailed Public Statement Advertisement on behalf of the Acquirers have been duty and legally authorized to sign this Letter of Offer.

This Pre-Offer Advertisement and Configendum to the Detailed Public Statement will also be accessible on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in. the Target Company at www.bijoyhans.net the Registrar to the Offer at www.integratedregistry.in, the Manager to the Offer at www.swaraishares.com, and BSE Limited at www.bseindia.com

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirers

SWARAJ

Swaraj Shares and Securities Private Limited

Unit No. 304, A. Wino: 215 Atrium, Near Courtyard Marriot, Andheri East, Mumbai - 400093, Maharashtra, Indiai Telephone Number: +91-22-69649999 Email Address: takeover@swarajshares.com Investors Grievance Email Address: investor.relations@swarajshares.com

Website: www.swarajshares.com

Contact Person: Mr. Tanmoy Banerjee/Ms. Pankita Patel SEBI Registration Number: INM00012980 Validity: Permanent Date: Wednesday, June 11, 2025

For and on behalf of all the Acquirers Place: Mumbai

BSE shares decline on trading caution

SHARES OF BSE slumped on Wednesday after they were placed under extra scrutiny to deter speculative trading, following a doubling of stock price in less than three months. The scrip ended down 4.44% at ₹2,872.00 on the NSE. It was the worst performer in the Nifty Midcap 100.

With the inclusion in the additional surveillance measure (ASM), trading in BSE shares will attract 100% margin. Stocks are shortlisted for ASM based on factors such as sharp price movement, high volumes and concentrated client activity.

The move comes as its shares surged about 130% from their March low, amid the exchange's growing footprint in equity derivatives market and pending IPO of the NSE. At a market value of about \$14 billion, BSE shares are trading at over 36 times the estimated earnings for the com--BLOOMBERG

SBI hires 13,455 junior employees

FE BUREAU Mumbai, June 11

STATE BANK OF India (SBI) on Wednesdayannounced hiring of 13,455 junior associates to enhance customer experience at its branches.

This recruitment drive, part of SBI's broader plan to hire around 18,000 personnel, aims to strengthen its human resource capabilities and invest in tech-aligned skill development for its growing workforce. The bank has a customer base of 52 crore as of March 31.

SBI chairman CS Setty emphasised the bank's commitment to nurturing the next generation of banking professionals, stating,"As we onboard this new talent pool, we aim to further strengthen our human resource capabilities by implementing structured skill development programs aligned with evolving functional and technological requirements."

Of the estimated 18,000 new recruits, 13,455 will be clerical recruitment and 3,000 will be probationary officers and localbased officers.

in Avendus **BAIJU KALESH, MANUEL BAIGORRI & HIDEKI SUZUKI** June 11 MIZUHO FINANCIAL GROUP is on the verge of buying a majority stake in investment bank Avendus Capital Pvt, people familiar with the matter said, in what would be the latest acquisition by a Japanese bank in India.

Mizuho on the

cusp of buying

majority stake

Executives are hammering out details of a transaction that could be finalized as soon as this month and value Avendus at about \$800 million, including debt, the people said, asking not to be identified because the deliberations are private.

largest lender, plans to acquire KKR & Co.'s 63% stake in Avendus and may also buy shares from minority investors, bringing its total holding to about 70%, the people added. Representatives Mizuho and KKR declined to

Mizuho, Japan's third-

comment. Avendus didn't immediately respond to a request for comment. Bloomberg News reported in February that Mizuho was working on a deal to buy a

another example of a Japanese

bank turning to India, Sumit-

Inc.'s banking unit last month agreed to buy a 20% stake in Yes Bank for about ₹13,500 crore (\$1.6 billion). Mizuho is seeking to repli-

cate its US playbook by leaning on the experience and connections of a local partner to grow its dealmaking business. In 2023, it bought US investmentbank Greenhill & Co to boost its presence in advisory for mergers and acquisitions in the Americas.

An Avendus acquisition would bolster Miuzho's presence in India, which has become a hotspot for initial public offerings and M&A. Chief Executive Officer majority stake in Avendus. In Masahiro Kihara has said the lender isn't interested in traditional retail banking assets in omo Mitsui Financial Group **—BLOOMBERG** Asia.

Lilavati Trust denies taking any loan from HDFC Bank



FE BUREAU Mumbai, June 11

LILAVATI TRUST HAS refuted the allegations regarding the loan taken from HDFC Bank. The bank also said it has started the process of taking legal action against baseless allegations.

The trust in a statement said neither it nor Prashant Mehta, a permanent trustee, has taken any loan from HDFC Bank. "The bank's refusal to present even basic documents in court undermines the credibility of the entire case and hints at deliberate narrative manipulation," the statement said.

The trust raised questions against the bank's failure to produce valid documents such as official loan ledger or agreement to prove its allegations. It also highlighted the inconsis-

tencies in the loan amount in different documents.

"A ₹4.9-crore loan.Or was it

₹65.22 crore? Or ₹450 crore? Yet, despite all the noise, not a single official loan ledger has been presented in the court... How can one of India's largest banks make three different claims about a single loan, and not back it up with a basic loan agreement and ledger?"

> said Mehta. The private lender, on the other hand, reiterated that Lilavati's allegations are malicious, false and defamatory.

"We are concerned about all our stakeholders and are on the verge of taking strong legal actions as per expert advice, against those who are initiating these baseless allegations with malafide and ulterior motives or involved in propagating the same," said the

MODULEX CONSTRUCTION TECHNOLOGIES LIMITED CIN: L25999PN1973PLC182679

Regd Office: A 82, MIDC Industrial Estate, Indapur, Pune - 413 132 Tel: +91 02111 299061 Email id: compliance@modulex.in Website: www.modulex.in

INFORMATION REGARDING 52ND ANNUAL GENERAL MEETING The 52nd Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Company will be held through VC / OAVM on Thursday, 10th July, 2025 at 01.00 P.M. IST, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made there under and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and

other applicable circulars as may be issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and SEBI in this regard,

- Pursuant to the applicable provisions of MCA and SEBI circulars, copy of the notice of the AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year 2024-25 will be sent to all the Shareholders electronically, to all those shareholders holding shares on Friday, 06th June, 2025 whose email addresses are registered with the Company / RTA. The notice of the AGM and annual report for the Financial Year 2024-25 will also be available on the Company's website at www.modulex.in and on the website of the Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com being the agency appointed by the Company for facilitating VC and voting by electronic means including the remote e-voting and e-voting during the AGM.
- Manner of registering/ updating email addresses:

to transact the businesses that will be set forth in the notice of the AGM.

- Shareholders holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the Company at company.secretary@modulex.in along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the Shareholder, self-attested copy of the PAN card, and selfattested copy of any address proof of the Shareholder (eg: Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Shareholder.
- Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participants.
- 4. Manner of casting vote through e-voting:
 - Shareholders will have an opportunity to cast their votes remotely on the businesses as set forth in the notice of the AGM through remote e-voting system.
 - The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to the Shareholders through email after successfully registering their email addresses in the manner provided above.
 - The detailed procedure for casting the votes through e-voting shall be provided in the notice of the AGM. The details will also be made available on the website of the Company.

5. This notice is being issued for the information and benefit of all the Shareholders of the Company in compliance with the above

for Modulex Construction Technologies Limited Bhoomi Mewada Company Secretary

Membership No.A34561

New Delhi

mentioned circulars.

epaper.financialexpress.com

Pune Mr. Kaushal Uttam Shah 11th June, 2025

श्री श्याम पल्प एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड (परिसमापन में) परिसमापकः श्री रोहित सहगल ईमेल आईडी: iamrs101@gmail-com | shreeshyam@truproinsolvency-com]

सार्वजनिक सूचना

माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने अपने दिनांक 21.01 2020 के आदेश के तहत श्री श्याम पत्प एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेंड (कॉर्पोरेट देनदार) के परिसमापन की घोषणा की और मामले में नीचे हस्ताक्षरकर्ता, श्री रोहित सहगल को परिसमापव

परिसमापक ने पाया है कि ग्राम गंगापुर रकबा (जिला काशीपुर) में श्री श्याम पल्प एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड से संबंधित 3.253 हेक्टेयर भूमि है, जो पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 6748 / 06 दिनांक 25.09.2006 के अनुसार काशीपुर में उप-पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत है। बिक्री विलेख के अनुसार भूमि का विवरण इस प्रकार है:

गाँव	तेहसील	खाता नं.	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
गंगापुर रकबा	काशीपुर	36	30 Mi	0.279
गंगापुर रकबा	काशीपुर	54	31	1.457
गंगापुर रकबा	काशीपुर		3 Mi	0.506
गंगापुर रकबा	काशीपुर	72	129 Mi	1.011
			कुल	3.253

परिसमापक को यह विक्रय विलेख न तो सुरक्षित उधारदाताओं से प्राप्त हुआ और न ही कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व निदेशकों से।

यदि किसी व्यक्ति के पास यह मूल विक्रय विलेख है, तो उसे इस सार्वजनिक सूचना से अगले पंद्रह दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित पते पर परिसमापक को देना होगा। हस्ताक्षर/-

> लिविवडेटर श्री श्याम पल्प एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड आईबीबीआई पंजीकरण संख्याः आईबीबीआई/आईपीए-001/ आईपी-पी00528/2017-2018/10953 पत्राचार के लिए पताः प्लॉट नंबर 581 चौथी मंजिल, सेक्टर-27, गुड़गांव, हरियाणा,122009

डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड CIN: L74899DL1989PLC035140

पंजी. कार्यालय : कंचनजंगा बिल्डिंग, 18 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

फोन: 011-43745000, ई-मेल: dsil@dcmsr.com, वेबसाइट: www.dcmsr.com

कम्पनी के इक्विटी शेयर्स का निवेशक शिक्षा और सरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण

एतदद्वारा शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा और संरक्षण प्राधिकरः लेखांकन, लेखापरीक्षण, अंतरण और प्रतिदाय) नियमावली, 2016, यथा संशोधित ('नियमावली') व ग्रवधानों के अनुसरण में कम्पनी वित्तीय वर्ष 2017—18 हेतु लाभांश, जो सात वर्षों की अवधि हेतु अदावित रहा है, आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरण करने हेतु आदेशित हैं। संगत शेयर्स, जिन पर नाभांश सात लगातार वर्षों अदावित रहा था, वे भी नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार

कम्पनी, नियमावली के अनुपालन में, संबंधित शेयरधारकों, जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने के भागी हैं, को उनके पंजीकृत पते पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु व्यक्तिगत सूचना प्रेषित कर चुकी है तथा ऐसे आईईपीएफ को अंतरित किए जाने के भागी शेयरों का विस्तृत विवरण कम्पनी की वेबसाइट नामतः www.domsr.com पर भी उपलब्ध करवाया गया है। संबंधित शेयरधारक वेबसाइट देख सकते हैं और उनके अंतरित किए जाने के भागी अदावित लाभांश तथा शेयरों के विस्तृत विवरण का सत्यापन कर सकते हैं।

शेयरधारक जिनके शेयर मौतिक रूप में हैं तथा जिनके शेयर आईईपीएफ को अंतरित किए जाने के भागी हैं. नोट करें कि कम्पनी, उनके द्वारा धारित शेयरों को डीमेट रूप में परिवर्तित करने तथा आईईपीएफ को अंतरित करने के लिए, मूल शेयरों के स्थान पर इंग्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट (सर्टिफिकेट्स) जारी करेगी।

शेयरधारक आगे नोट करें कि कम्पनी द्वारा इसकी वेबसाइट पर अपलोड किया गया विस्तृत विवरण आईईपीएफ को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेत् कम्पनी द्वारा इप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेर (सर्टिफिकेट्स) जारी करने के संबंध में यथेष्ट सूचना समझी और मानी जाएगी।

यदि कम्पनी को संबंधित शेयरधारकों से 31 अगस्त, 2025 तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, त कम्पनी नियमावली की अपेक्षाओं के अनुपालन की दृष्टि से लाभांश का अंतरण, नियमावली र अनुबद्ध प्रक्रिया के अनुसार, नियत तिथि तक आईईपीएफ को कर देगी। संगत शेयर्स, जिन पर लाभांश सात लगातार वर्षों अदावित रहा है, वे भी आगे और कोई सचना दिए बिना अंतरित कर दिए

कुपया नीट करें कि आईईपीएफ को अंतरित अदावित लाभाश राशि और शेयरों के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा। शेयरघारक आईईपीएफ को अंतरित लामांश राशि और शेयर उन पर उदभ्त सभी लाभों, यदि कोई, सहित की वापसी की मांग आईईपीएफ प्राधिकारियों से, नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात, कर सकते हैं।

उपरोक्त विषय में किसी पूछताछ हेतु, शेयरधारकों से कम्पनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेन्ट्स, मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टावर—बी, प्लॉट नंबर 31 एवं 32, गाबीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना - 500032 ई-मेल : <u>einward.ris@kfintech.com;</u> वेबसाइट : <u>www.kfintech.com;</u> टोल फी नंबर 1800-309-4001 तथा व्हाट्सऐप नंबर (91) 91000094099 से सम्पर्क करने का अनुरोध है।

Submission of Bids (other than Bids from Anchor Investors):

वास्ते डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

DCM SHRIRAM

हस्ता/ वाई.डी. गुप्ता कम्पनी सचिव

COURT NOTICE COURT NOTICE In The Court Of Sh. Gurdev Singh Judicial Magistrate-Ist Class Ludhiana

M/s Turbo Tools Pvt Ltd

Vs.

Umesh Kumar CNR NO: PBLD03-015864-2021 Next Date: 10-07-2025 Detail Of Offence:-Notice To: Umesh Kumar : Prop M/s Brand Center, Jharsa Road, Near Reliance Fresh, Kirti Nagar, Gurgaon, Haryana

In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 10-07-2025 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?mod=di

strict_notice&district=Ludhiana Judicial Magistrate- Ist Class Ludhiana

आर.सी./198/2024

लाल सूद और श्रीमती निशि सूद के माध्यम से

एच.ओ. पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110015

पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110015

रोहित सहगल

कार्यालय ऋण वसूली अधिकारी-I/II

ऋण वसूली अधिकरण चण्डीगढ़ (डीआरटी 3)

भूतल तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर 17ए, चण्डीगढ़-160017

(ऋण वसूली और दिवालिया अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 तथा आयकर

द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड

मैसर्स फ्लोर एक्सपोर्ट्स

(सीडी 1) मेसर्स फ्लोरा एक्सपोर्ट्स, एक साझेदारी कंपनी, जिसका व्यवसाय 236/2ए, औद्योगिक

क्षेत्र-ए, लुधियाना, पंजाब-141003 में है, इसके भागीदारों श्री परवीन सुद, श्री गौरव सुद, श्री चमन

(सीडी 2) श्री परवीन सूद के पुत्र श्री चमन लाल सूद, मेसर्स फ्लोरा एक्सपोर्ट्स के भागीदार, जिसका

इसके अलावाः निवास स्थानः मकान नं. 39, द्वितीय तल, ब्लॉक-एच, कीर्ति नगर, रमेश नगर,

(सीडी 3) श्री गौरव सूद पुत्र श्री अश्वनी कुमार सूद, पार्टनर मेसर्स फ्लोरा एक्सपोर्ट्स, जिसका

(सीडी 4) श्री चमन लाल सूद पुत्र श्री सालिग राम, पार्टनर मेसर्स फ्लोरा एक्सपोर्ट्स, जिसका

इसके अलावाः निवास मकान नंबर 20-बी, सिविल लाइंस, किचलू नगर, लुधियाना, पंजाब-141001

(सीडी 5) श्रीमती निशि सूद पुत्री श्री. दविंदर सिंह सूद पार्टनर मेसर्स फ्लोरा एक्सपोर्ट्स, जिसका

इसके अलावाः निवास मकान नंबर 39, दूसरी मंजिल, ब्लॉक-एच, कीर्ति नगर, रमेश नगर, एच.ओ.

(सीडी 6) श्री अश्विनी कुमार सूद पुत्र श्री चमन लाल नेहरा, निवास ए-141, प्रशांत विहार, दिल्ली

इसके अलावाः 16-ए, खुखरियां अपार्टमेंट, सेक्टर 13, रोहिणी, रोहिणी, सेक्टर-7, उत्तर पश्चिम

(बी) श्री परवीन सूद पुत्र चमन लाल सूद निवासी मकान नंबर 39, द्वितीय तल, ब्लॉक-एच, कीर्ति

यह अधिसुचित किया जाता है कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसुली अधिकरण (डीआरटी

3) ओए/748/2021 में जारी वसुली प्रमाणपत्र के अनुसार **रु**. 219704835.11 (रुपये इक्कीस

करोड़ सत्तानवे लाख चार हजार आठ सौ पैतीस और ग्यारह पैसे मात्र) तथा पेंडेंटलाइट और

10.00% वार्षिक साधारण भावी ब्याज तथा लागत रु. 15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)

2. आपको एतद्वारा उपरोक्त राशि का भुगतान नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर करने का

3. चूंकि अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह दर्शाया गया है कि आपको सामान्य तरीके से सेवा प्रदान

4. आपको एतदवारा आदेश दिया जाता है कि आप एक हलफनामे पर सनवाई की अगली तारीख

(क) प्रमाण पत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के तरंत बाद शरू होने वाली अवधि के लिए

(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं की सेवा के संबंध में बकायों की वसूली के लिए

की गई अन्य सभी कार्यवाही हेतु किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

करना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि आप 29.10.2025

निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर बैंकों और वित्तीय संस्थान ऋण वसली अधिनियम, 1993

(सी) श्री अश्वनी कुमार सुद पुत्र चमन लाल नेहरा निवासी ए-141, प्रशांत विहार, दिल्ली।

अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत सूचना)

व्यवसाय 236/2ए, औद्योगिक क्षेत्र-ए, लुधियाना, पंजाब-141003 में है

व्यवसाय 236/2ए, इंडस्ट्रियल एरिया-ए, लुधियाना, पंजाब-141003 पर है

व्यवसाय 236/2ए, इंडस्ट्रियल एरिया-ए, लुधियाना, पंजाब-141003 पर है

व्यवसाय 236/2ए, इंडस्ट्रियल एरिया-ए, लुधियाना, पंजाब-141003 पर है।

नगर, रमेश नगर, मकान नंबर पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110015

आपके (संयुक्त एवं पृथक-पृथक/पूर्णतः/सीमित) विरुद्ध बकाया है।

और उसके तहत नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।

को सुबह 10.30 बजे इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों।

5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भूगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

को या उससे पहले अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करें।

मेरे हस्ताक्षर तथा इस अधिकरण की मुहर सहित 27.05.2025 को

निवासी मकान नंबर 20-बी, किचलू नगर, लुधियाना, पंजाब-141001

In The Court Of Ms. Priya Sood District And Sessions Judge, SBS Sarbjit Kaur

Next Date: 07-07-2025

claim netition under section 166 of motor

Publication Issued To: 2. Rupinder singh

CIS No: MACP/10/2024

Deepak Singh & Ors.

CNR NO: PBSB01-000746-2024

vehicle act on account of death of

kulwant singh on dated 16-01-2024

s/o jaswinder singh r/o 3419 police co op society 51D chandigarh - 160047 (owner of offending car bearing reg. number CH-01-CS-8252 (earlier bearing no. DL-1 CAF-8286) In above titled case, the defendant(s)/ respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/respondent (s) should appear in person or through

counsel on 07-07-2025 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?mod=distri ct_notice&district=sbsnagar District Sessions Judge, SBS Nagar

[विनियम 33(2) देखें]

प्रपत्र सं. 14

प्रकाशन द्वारा

27.05.2025

Publication Issued To: Chandan Sinha R/o - Village Madumpura Lahsuna, Patna, Bihar Pin Code 804452 In above titled case, the defendant (s)/ respondent(s) could not be served. It is ordered that

COURT NOTICE

In The Court Of Ms. Neelam

Court, Ludhiana

Chandan Sinha

Pinki Devi

Arora Principal Judge Family

CNR NO: PBLD01-016276-2024

Next Date: 05-07-2025

defendant(s)/respondent (s) should appear in person or through counsel on 05-07-2025 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?mod=di strict notice&district=ludhiana Principal Judge Family Court Ludhiana

Arora Principal Judge Family Court, Ludhiana |Manjeet Singh Kulchander Kaur CNR NO: PBLD01-020436-2023 Next Date: 14-07-2025 Shri Surjit Singh R/o Near Nagar, Ludhiana

(s)/ respondent(s) could not be served. It is ordered that appear in person or through counsel on 14-07-2025 at 10:00 a.m. for details logon to: strict notice&district=ludhiana Principal Judge Family Court Ludhiana

(पूर्व में एफल (इंडिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

सदस्यों को सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("**अधिनियम**") की धारा 108 और 110 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ("**नियम**") के नियम 20 और 22 और अधिनियम और नियमों के अन्य लागू प्रावधान, सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ("**एमसीए परिपत्र**") द्वारा जारी अन्य परिपत्र, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("**सूचीबद्धत**ा विनियम"), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ("एसएस -2") द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक, और अन्य लागू कानून और विनियम, यदि कोई हो, जिसमें वर्तमान में लागू और समय-समय पर संशोधित कोई वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल हैं, एफल 3आई लिमिटेड (जिसे पहले (एफल (इंडिया) लिमिटेड) ("कंपनी") के नाम से जाना जाता था) वह दिनांकित 4 जून, 2025 डाक मतपत्र सूचना में निर्धारित प्रस्तावों को पारित करके अपने सदस्यों से केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("ई-वोटिंग/रिमोट ई-वोटिंग") के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करना चाह रही है।

www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और केफिन टेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा एमसीए सर्कुलर वे अनुसार, डाक मतपत्र सूचना की भौतिक प्रति, डाक मतपत्र फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस लिफाफे के साथ सदस्यों को इस पोस्टल बैलेट के लिए नहीं भेजी जाएगी। . सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग केवल ई-वोटिंग के माध्यम से कर सकते हैं, ई-वोटिंग की विस्तृत

प्रक्रिया पोस्टल बैलेट नोटिस में दी गई है। ई-वोटिंग की अवधि गुरुवार, 12 जून, 2025 (सुबह 9:00 बजे आईएसटी) से शुरू होगी और शुक्रवार, 11 जुलाई, 2025 (शाम 5:00 बजे आईएसटी) (दोनों दिन सम्मिलित) को समाप्त होगी। सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल इसी अवधि के दौरान अपना वोट डालें।

की अनमति नहीं दी जाएगी। . कंपनी ने किरण शर्मा एंड कंपनी की सश्री किरण शर्मा (एफसीएस 4942, सीपी सं. 3116), कार्यरत

कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए समीक्षक

https://www.nseindia.com पर सूचित किए जाएंगे।

संपर्क विवरण नोट करें:

ईमेल आईडीः evoting@kfintech.com/umesh.pandey@kfintech.com

टोल फ्री नंबर 1800 309 4001

तिथि: 11 जून, 2025

स्थानः गुरुग्राम

COURT NOTICE In The Court Of Ms. Neelam

Publication Issued To: Kulchander Kaur W/o Sh. Manjeet Singh D/o Hanuman Mandir Road, Hargobind In above titled case, the defendant defendant(s)/respondent (s) should

https://highcourtchd.gov.in/?mod=di

ईमेलः compliance@affle.com सीआईएन : L65990DL1994PLC408172

सदस्यों को एतदुद्वारा सुचित किया जाता है किः

जैसे कि बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट

4. ई-वोटिंग मॉड्यूल 11 जुलाई, 2025 को शाम 5:00 बजे (आई.एस.टी.) निष्क्रिय कर दिया जाएगा

को पारित माना जाएगा। ई-वोटिंग के परिणाम दो कार्य दिवसों के भीतर यानी मंगलवार, 15 जुलाई, 2025 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट https://affle.com और केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे समीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम एक साथ स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड को https://www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

kotak

पते. ऋण खाता संख्या. ऋण राजि

उत्तराखंड– 249404, श्री पिंटू दास पुत्र

श्री सुदर्शन दास, **दोनों का पता :** प्लॉट

1 का भाग, खसरा संख्या 470 मिन.,

शिवालिक गंगा विहार, सलेमपुर महदूद,

।, परगना रुड़की, तहसील और जिला

हरिद्वार 249408 में स्थित। **ऋण खाता**

श्रीमती बलजीत कौर पंजवानी पत्नी श्री जयदीप

संख्या : 611738—011153469 और

ऋण राशि : रु. 19,04,390/-

ऋण राशि : रु. 67,64,900/-

(रुपये सड़सट लाख चौंसट हजार नौ सौ मात्र)

(मोबा. +91 9910563402) एवं राहल रंजन

(मोबा. +91 9319447693) से संपर्क करें।

किसी भी पूछताछ के लिये कृपया श्री सोमेश सुंदरियाल

611738311196091

पता : बहादरपुर जट्ट, हरिद्वार,

..continued from previous page

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 11.06.2025

वसुली अधिकारी

ऋण वसुली अधिकरण चण्डीगढ़ (डीआरटी 3)

Bid/Offer Period (except the Bid/Issue Closing Date) Submission and Revision in Bids Only between 10.00 a.m. and 5.00 p.m. Indian Standard Time ("IST") Bid/Offer Closing Date* Only between 10.00 a.m. and up to 5.00 p.m. IST Submission of electronic applications (online ASBA through 3-in-1 accounts) - For RIBs Only between 10.00 a.m. and up to 4.00 p.m. IST Submission of electronic application (bank ASBA through online channels like internet banking, mobile banking and syndicate ASBA applications through UPI as a payment mechanism where Bid Amount is up to ₹0.50 million)

Submission of electronic applications (syndicate non-retail, non-individual applications of QIBs and NIIs) Only between 10.00 a.m. and up to 3.00 p.m. IST Only between 10.00 a.m. and up to 1.00 p.m. IST Submission of physical applications (direct bank ASBA) Submission of physical applications (syndicate non-retail, non-individual applications where Bid Only between 10.00 a.m. and up to 12.00 p.m. IST Amount is more than ₹0.50 million) Modification/ Revision/cancellation of Bids

Upward Revision of Bids by QIBs and Non-Institutional Bidders categories"

Upward or downward Revision of Bids or cancellation of Bids by RIBs *UPI mandate end time and date shall be at 5:00 pm on the Bid/Offer Closing Date.

For all Offer related queries and for redressal of complaints, Investors may also write to the BRLMs.

Only between 10:00 a.m. on the Bid/Offer Opening Date and up to 4:00 p.m. IST on Bid/Offer Closing Date Only between 10.00 a.m. on the Bid/Offer Opening Date and up to 5.00 p.m. IST on Bid/Offer Closing Date

(i) 4.00 p.m. IST in case of Bids by QIBs and Non-Institutional Bidders; and (ii) until 5.00 p.m. IST or such extended time as permitted by the Stock Exchanges, in case of Bids by Retail Individual Bidders.

AN INDICATIVE TIMETABLE IN RESPECT OF THE OFFER IS SET OUT BELOW: On the Bid/Offer Closing Date, the Bids shall be uploaded until:

पंजीकत कार्यालय : 27बीकेसी. सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई- 400051

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **कोटक महिंद्रा बैंक लि.** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, यहाँ नीचे विवरणितानुसार उधारकर्ताओं को माँग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें संबंधित उधारकर्ताओं को सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसो के अंदर. उक्त सचनाओं में अंकित राशि का. भूगतान की वास्तविक तिथि तक समस्त लागतों, शुल्कों और व्ययों के साथ प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उक्त उधारकर्ता(गण) / सह—उधारकर्ता(गण) राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो बुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ताओं / सह—उधारकर्ताओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकत ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, उसके साथ अंकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है उधारकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्तियों व लेन—देन न करें तथा सम्पत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन—देन, वहाँ उसमें अर्थात् सूचना में विनिर्दिष्ट एक राशि और इस पर संबंधित तिथियों से आकलित भावी ब्याज, लागतों एवं शुल्कों हेतु **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड** के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुड़वाने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। उधारकर्ताओं, अनुसूचित संपत्ति, बकाया देयराशि, धारा 13(2) के अंतर्गत प्रेषित माँग सचनाओं और उनके अंतर्गत अभ्यर्थित राशियाँ, अधिग्रहण की तिथि के विवरण य

> अचल संपत्ति के विवरण ।. अधिग्रहण की तिथि 2. अधिग्रहण का प्रकार भावासीय संपत्ति का वह परा टकडा जिसमें 3. माँग सूचना तिथि 4. बकाया देंयराशि रू. में वाली भूमि संख्या 1, पूर्व में 21 फीट 6 इंच, . 09.06.2025 ाश्चिम में 21 फीट 6 इंच, उत्तर में 25 फीट भौतिक अधिग्रहण और दक्षिण में 25 फीट, कुल भूमि क्षेत्रफल 3. 27.07.2023 537.50 वर्ग फीट यानि 49.95 वर्ग मीटर, 4. रु. 24.81.085 ∕ – र्वि में 13 फीट चौड़ा मार्ग, पश्चिम में अन्य यक्ति की संपत्ति. उत्तर में प्लॉट संख्या

हजार पिचासी मात्र) 02.06 रुसजी–3 / 360–ए का भाग और प्लॉट 2025 के अनसार देय तथा पंख्या 01 का निजी भाग और दक्षिण में लॉट संख्या एसजी–3 / 345–ए, खसरा भुगतानयोग्य, पूर्ण भुगतान पंख्या ४७० मीटर से संबंधित. शिवालिक होने तक 03.06.2025 से ांगा विहार गांव सलेमपुर महदूद-1 (नगर लाग् ब्याज सहित। ग़लिका शिवालिक नगर की सीमा के नीतर) परगना रुडकी तहसील और जिला

अधिग्रहण सूचना

हरिद्वार, उत्तराखंड 249408 में स्थित है बंधककर्ता के नाम : श्रीमती बबीता। श्री जयदीप आहूजा पुत्र श्री महेंद्र सिंह आहूजा और पलैट संख्या सीजी-07, टाइप 1. 10.06.2025 आहजा, **दोनों का पता :** डब्ल्यूजेड 34–2 ऊपरी | 124, पुराना खसरा संख्या 231, | **3. 04.04.2024** ततीय तल. मुखर्जी पार्क एक्सटेशन, तिलक नगर, 232, 233 और 234 का वह 4. ₹. 1,14,78,810/−

कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड स्थान : उत्तराखंड, दिनॉक : 12-06-2025

अभिरुपि की अभिव्यक्ति (ईओआई) हेतु आमंत्रण ट्रांजलीज होल्डिंग्स (इंडिया) प्राइबेट लिमिटेड ट्रांजलीज होल्डिंग्स (इंडिया) प्राइबेट लिमिटेड मुंबई. गुरुग्राम और अन्य स्थानों पर कारों को पट्टे पर देने का व्यवसाय में संघालित (दिवाला और शोषन अक्षमता (कॉरपोरेट व्यक्तिमें के तिए दिवाता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए के उप-विनियम(1) के अधीन) प्रासंगिक विवरण के साप ट्रांजलीज होल्डिंग्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

पैन / सी आईएन / एलएलपी संख्या कॉर्पेरिट देनदार का नाम सीआईएन : U65910MH2006PTC162528 कीपीरेट देनदार का कार्यालयः मकान नंबर 695, तिरूपी एपीटी. पाटकर प्लॉट, क्लांबे शाहपुर, क्लमगांव, ठाणे शाहपुर, महाराष्ट्र, भारत - 421601 वेबसाइट का युआरएल उस स्थान का विवरण जहां अवल संपत्तियों का मुम्बई, दिल्ली एनसीआर बहमत स्थित है कॉर्पोरेट देनदार के मुख्य उत्पादी/सेवाओं की कारों का पड़ा पिछले वितीय वर्ष में बेचे गए मुख्य वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उपलब्ध ऑडिटेड बैलेंस शीट

कर्मचारियो /वर्डमैन की संख्या दो वर्षी के ऑतम उपलब्ध विक्तीय विवरणों विस्तृत जानकारी के लिए समाधान पेक्षेवर को बपतचः अनसचियों के साथ), लेनदारों की मची, प्रक्रिया की बाद की पटनाओं हेत् प्रासंगिक तिथियां सहित सकता है। अधिक विवरण यहां उपलब्ध है:-

संदिता की धारा 25(2)(एव) के तदन समाधान विस्तृत जानकारी के लिए समाचान पेशेवर को बपतच. cirp.tranzlease@gmail.com पर अनुरोध मेजा जा आवेदकों के लिए पात्रता यहां युआरएल पर रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27-06-2025 संनावित संकल्प आवेदको की अंतिम सूची जारी

अंतिम सुची पर आपत्तियां प्रस्तुत करने की 04-07-2025 अतिम तिवि संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सुची 06-07-2025 जारी करने की तारीख संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन 1-07-2025 मुख्यांकन मेट्रिक्स और समायान योजनाओं वं लिए अनुरोध जारी करने की तारीख समाचान योजना प्रस्तुत करने की ओतम तिथि 10-08-2025 ठाँच की अभिन्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए ईमेल

> एमएसएमई के रूप में कॉर्पोरेट देनदार की पंजीकरण स्थिति का विवरण (पहले मंत्रा इन्सॅल्वेंसी प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था

> ट्रांजलीज होल्डिंग्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के मामले आईबीबीआई पंजीकरण संख्याः IBBI/IPE-0040/IPA-2/2022-23/50021 पत्राचार के लिए ईमेल - cirp.tranziease@gmail.com

दिनांक 12.06.2025 स्थानः नई दिल्ली

QIBs and Non-Institutional Bidders can neither revise their bids downwards nor cancel/ withdraw their Bids. ASBA* | Simple, Safe, Smart way of Application!!!

*Applications Supported by Blocked Amount ("ASBA") is a better way of applying to offers by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA. Mandatory in public issues.



and Non-Institutional Bidders also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN. Bidders must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021 read with press release dated September 17, 2021, CBDT Circular No. 3 of 2023 dated March 28, 2023.

UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Bidders and Non Institutional Bidders applying in public issues where the application amount is up to ₹0.50 million, applying through Registered Brokers, Syndicate, CDPs & RTAs. Retail Individual Bidders

Bid/Issue Period: Event Bid/Offer opens on Bid/Offer closes on Finalisation of basis of allotment with the Designated Stock Exchange

Initiation of refunds (if any, for Anchor Investors)/ unblocking of funds from ASBA Credit of Equity Shares to demat accounts of Allottees Commencement of trading of the Equity Shares on the Stock Exchanges

the BRLMs to the Stock Exchanges.

ASBA has to be availed by all the investors except Anchor Investors. UPI may be availed by (i) Retail Individual Investors in the Retail Category; (ii) Non-Institutional Investors with an application size of up to ₹0.50 million in the Non-Institutional Portion. For details on the ASBA and UPI process, please

refer to the details given in the Bid Cum Application Form and abridged prospectus and also please refer to the section "Offer Procedure" on page 506 of the RHP. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI") and Stock Exchanges and in the General Information Document. The Bid Cum Application Form and the Abridged Prospectus can be downloaded from the websites of BSE Limited ("NSE") and together with BSE, the "Stock Exchanges") and can be obtained from the list of banks

that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpl=yes&intmId=35 and https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpl=yes&intmId=43, respectively as updated from time to time. For the list of UPI apps and banks

live on IPO, please refer to the link, www.sebi.gov.in. UPI Bidders Bidding using the UPI Mechanism may apply through the SCSBs and mobile applications whose names appear on the website of SEBI, as updated from time to time. HDFC Bank Limited and Axis Bank Limited have been appointed as

the Sponsor Banks for the Offer, in accordance with the requirements of SEBI circular dated November 1, 2018 as amended. For Offer related gueries, please contact the BRLMs on their respective email IDs as mentioned below. For UPI related gueries, investors can contact NPCI at the toll free

On Bid/Offer Closing Date, extension of time may be granted by Stock Exchanges only for uploading Bids received from RIIs after taking into

account the total number of Bids received up to closure of timings for acceptance of Bid cum Application Forms as stated herein and as reported by

IIFL CAPITAL

(formerly known as IIFL Securities Limited) 24th Floor, One Lodha Place. Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400 013 Maharashtra, India Tel: +91 22 4646 4728 E-mail: oswalpumps.ipo@iificap.com Website: www.iiflcap.com Investor grievance e-mail: ig.ib@iiflcap.com Contact person: Yogesh Malpani/ Pawan Kumar Jain

SEBI registration no.: INM000010940

www.bseindia.com and for NSE Limited at www.nseindia.com.

only rely on the information included in the RHP filed by the Company with the RoC.

AXIS CAPITAL

Pandurang Budhkar Marg. Worli, Mumbai 400 025 Maharashtra, India Tel: +91 22 4325 2183 E-mail: oswalpumps.ipo@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in Investor grievance e-mail: complaints@axiscap.in Contact person: Jigar Jain SEBI registration no.: INM000012029

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

A CITIC Securities CLSA Company **CLSA India Private Limited**

Tel: +91 22 6650 5050 E-mail: oswalpumps.ipo@clsa.com Website: www.india.clsa.com Investor grievance e-mail: investor.helpdesk@clsa.com Contact person: Prachi Chandgothia/ Purab Sharma SEBI registration no.: INM000010619

JM FINANCIAL

Prabhadevi, Mumbai 400 025 Maharashtra, India Tel: +91 22 6630 3030 E-mail: oswalpumps.ipo@jmfl.com Website: www.jmfl.com Investor grievance e-mail: grievance.ibd@jmfl.com Contact person: Prachee Dhuri SEBI registration no.: INM000010361



G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051 Maharashtra, India Tel: +91 22 4009 4400 E-mail: oswalpumps@nuvama.com Website: www.nuvama.com Investor grievance e-mail: customerservice.mb@nuvama.com Contact person: Lokesh Shah SEBI registration no.; INM000013004

REGISTRAR TO THE OFFER (•) MUFG

Tel: + 91 810 811 4949 E-mail: oswatpumps.ipo@linkintime.co.in. Website: www.linkintime.co.in Investor grievance e-mail: oswalpumps.ipo@linkintime.co.in Contact person: Shanti Gopalkrishnan SEBI registration no.: INR000004058

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER Anish Kumar, Oswal Pumps Limited Oswal Estate, NH-1, Kutail Road, P. O. Kutail, District Karnal Haryana 132 037, India. Tel: +91 18 4350 0307; E-mail: investorrelations@oswalpumps.com

Bidders are advised to contact the Company Secretary and Compliance Officer and/or the Registrar to the Offer in case of any pre-Offer or post-Offer related grievances such as non-receipt of funds by electronic mode, etc.

Place: Haryana

cpaper.jamaana.com

Date: June 11, 2025

AVAILABILITY OF THE RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the "Risk Factors" on page 33 of the RHP before applying in the Offer. A copy of the RHP will be made available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and is available on the websites of the BRLMs, IFL Capital Services Limited (formerly known as IFL Securities Limited) at www.iiflcap.com, Axis Capital Limited at www.axiscapital.co.in, CLSA India Private Limited at www.india.clsa.com, JM Financial Limited at www.imfl.com and Nuvama Wealth Management Limited at www.nuvama.com and at the website of the Company, Oswal Pumps Limited at www.oswalpumps.com and the websites of the Stock Exchanges, for BSE at

www.oswalpumps.com, www.irflcap.com, www.axiscapital.co.in, www.india.clsa.com, www.jmfl.com and www.nuvama.com and www.linkintime.co.in, respectively. AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORM: Bid cum Application Form can be obtained from the Registered Office of our Company, OSWAL PUMPS LIMITED: Tel: +91 18 4350 0307; BRLMs: IFL Capital Services Limited (formerly known as IFL Securities Limited), Tel: +91 22 4646 4728; Axis Capital Limited, Tel: +91 22 4325 2183; CLSA India Private www.nseindia.com and at all the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the websites of the Stock Exchanges and SEBI.

AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS: Acopy of the Abridged Prospectus shall be available on the website of the Company, the BRLMs and the Registrar to the Offer at:

Limited, Tel: +91 22 6650 5050; JM Financial Limited, Tel: +91 22 6630 3030 and Nuvama Wealth Management Limited, Tel: +91 22 4009 4400 and Syndicate Members: JM Financial Services Limited, Telephone: +91 22 6136 3400 and Nuvama Wealth Management Limited, Tel: +91 22 4009 4400, Registered Brokers, SCSBs, Designated RTA Locations and Designated CDP Locations for participating in the Offer. Bid cum Application Forms will also be available on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and SUB-SYNDICATE MEMBERS: Axis Securities Limited, Almondz Global Securities Ltd., Anand Rathi Share & Stock Brokers Limited, Anand Share Consultancy, ANS Pvt Limited. Ashwani Dandia & Co, Centrum Broking Ltd., Eurekha Stock & Share Brokers Ltd., G Raj & Co. (Consultants) Limited, Globe Capital Markets Ltd., HDFC Securities Ltd., ICICI

Securities Limited, IDBI Capital Markets and Securities Ltd., IIFL Capital Services Limited, Innovate Securities Pvt Limited, Jhaveri Securities, JM Financial Services Limited Jobanputra Fiscal Services Pvt Limited, Kalpataru Multiplier Limited, Kantilal Chhaganial Securities P, Ltd., Keynote Capital Limited, KJMC Capital Market Services Limited, KJMC Capital Markets Ltd., Kotak Securities Limited, Lakshmishree Investment & Securities Pvt Limited, LKP Securities Limited, Marwadi Shares & Finance, Motifal Oswal Financial Services Limited, Patel Wealth Advisors Pvt Limited, Prabhudas Lilladher Pvt Limited, Pravin Ratilal Share & Stock Brokers Limited, Religare Broking Ltd., RR Equity Brokers Pvt. Ltd., SBICAP Securities Limited, Sharekhan Limited, SMC Global Securities Limited, Systematix Shares and Stock Brokers Ltd., Tanna Financial Services, Tradebulls Securities Limited, Viren M Shah and Yes Securities (India) Limited. ESCOW COLLECTION BANK: HDFC Bank Limited | REFUND BANK: HDFC Bank Limited | PUBLIC OFFER ACCOUNT BANK: Axis Bank Limited | SPONSOR BANKS: HDFC Bank Limited and Axis Bank Limited

UPI: UPI Bidders can also Bid through UPI Mechanism All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For OSWAL PUMPS LIMITED On behalf of the Board of Directors Anish Kumar

OSWAL PUMPS LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed a red herring prospectus dated June 7, 2025 with the RoC. The RHP is made available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the website of the BRLMs i.e., IIFL Capital Services Limited (formerly known as IFL Securities Limited at www.nuvama.com, the website of the NSE at www.nseindia.com and the website of the BSE at www.bseindia.com and the website of the Company at www.oswalpumps.com. Any potential investor should not rely on the DRHP for making any investment decision but should

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state securities act of 1934, as amended ("U.S. Securities Act"), requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, such Equity Shares are being offered and sold outside of the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.

(सीडी 7) श्रीमती कौशल रानी सूद पत्नी श्री चमन लाल सूद अब दिवंगत हो चुकी हैं उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से:-(ए) श्री चमन लाल सूद पुत्र श्री सालिग राम, निवास एच. नंबर 20-बी सिविल लाइंस, किचलू

. यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाते हैं, तो उन्हें ई–वोटिंग की अंतिम तिथि यानी शुक्रवार, 11 जुलाई, 2025

सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों/शिकायतों, यदि कोई हो, को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित श्री उमेश पांडे (यूनिट: एफल 3आई लिमिटेड) प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

> कृते एफल 3आई लिमिटेड (पूर्व में एफल (इंडिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात

उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता के नाम तथा

affle एफल 3आई लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ए47 लोअर ग्राउंड फ्लोर, हौज़ खास, ऑफ अमर भवन, नई दिल्ली-110016 (फोन) : 0124-4598749; वेबसाइट : www.affle.com;

डाक मतपत्र /पोस्टल बैलेट की सुचना

1. उन सभी सदस्यों को ईमेल के माध्यम से रिमोट ई–वोटिंग के बारे में निर्देशों के साथ डाक मतपत्र सुचना भेजने की प्रक्रिया, जिनका ईमेल पता कंपनी या डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों या मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("**केफिनटेक**"), रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("**आरटीए**" के साथ पंजीकृत है और जिनके नाम शुक्रवार, 6 जून, 2025 ("कट-ऑफ तारीख") को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं, 11 जून, 2025 को पूरी हो गई है। . पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट https://affle.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट

और एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने

Indicative Date

Friday, June 13, 2025

Tuesday, June 17, 2025

On or about Wednesday, June 18, 2025

On or about Thursday, June 19, 2025

On or about Thursday, June 19, 2025

On or about Friday, June 20, 2025

रवि कॉलोनी, हेरा बाग दाहुद रोड, बांसवाड़ा, जिसकी माप लगभग 1695 हरियाणा— 121001 दोनों का पता **यहां पर भी :—** वर्ग फीट सुपर एरिया फ्लैट नंबर सी–जी07, ग्राउंड फ्लोर, टाइप सी, (लगभग) है, जिसमें रेसिज़ोन रेजीडेंसी, मयूर विहार, सहस्त्रधारा रोड, का हिस्सा और सामान्य सहित।

अविभाजित आनुपातिक भूमि तक 10.05.2025 से लागू ब्याज ऋण खाता संख्या : HOU/GUR/0216/268343 | सुविधाएं शामिल हैं, जो मौजा कंडोली, परगना परवादून, मयूर विहार, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून 248001 में स्थित है। बंधककत

प्राधिकृत अधिकारी

के अनुसार, परिचालन से राजस्व 18.83 करोड़ रूपये है।

cirp.tranzlease@gmail.com

इसके निदेशक - श्री अतुल टंडन के माध्यम रिजॉल्युशन प्रोफेशनल

एएफए वैचताः 31.12.2025 तक

No cheque will be accepted.

IIFL Capital Services Limited

Axis Capital Limited 1st floor, Axis House,

number: 18001201740 and mail ld: ipo.upi@npci.org.in.

8/F Dalamal House, Nariman Point Mumbai 400 021 Maharashtra, India JM Financial Limited 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg. Nuvama Wealth Management Limited 801-804, Wing A, Building No. 3, Inspire BKC MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited) C-101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083 Maharashtra, India

Company Secretary and Compliance Officer

आईपीई - एनपीवी इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स प्राडवेट लिमिटेर